

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन

केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला

क्षेत्रीय अन्न व औषध प्रशासन भवन, जी.एम.एस.डी कंपाउंड,

बेलासीस रोड, मुंबई सेन्ट्रल, मुंबई ४००००८

दूरभाष : ०२२-२३००२३०९ / ०२२-२३०० २१३८

फैक्स : ०२२-२३०९ ९२४०

ई-मेल : cdtlmumbai@cdsco.nic.in



CDSCO

Government of India

Ministry of Health and Family Welfare

(Directorate General of Health Services)

Central Drugs Standard Control Organisation

Central Drugs Testing Laboratory

Zonal FDA Bhawan, GMSD Compound,

Bellasis Road, Mumbai Central, Mumbai - 400 008.

Tel : 022-2300 2309 / 2300 2138

Fax : 022- 2309 9240

Email : cdtlmumbai@cdsco.nic.in

Accredited By : NABL (ISO/IEC-17025:2005 in Chemical & Biological Testing)

Certified For : IMS (ISO - 9001:2008; ISO - 14001:2004; OHSAS - 18001:2007)

F.No.1(262)/CDTL-MUM/2018-19

VACANCY CIRCULAR

RECRUITMENT OF LAB. ASSISTANT FOR CENTRAL DRUGS TESTING LABORATORY

Central Drugs Testing Laboratory , Mumbai is working under administrative control of Drugs Controller General(I),CDSCO,DGHS,Ministry of Helth & Family Welfare, New Delhi. CDTL-Mumbai will be conducting walk-in interview to fill 01 post of Laboratory Assistant on contractual basis through outsourcing agency with fixed emoluments of Rs. 16,468 /- per moonth w.e.f 1.6.2019 to 31.12.2019 . The interview will be held on 30.5.2019 at 10.00AM.

The contractual peiod may be rduced or extended at the sole discreation of the management (CDSCO-HQ).During the contract period the service can be terminatd without any notice or without assigning any reasons whatsoever.

Sr. No.	Name of the pos	No. of Posts	Monthly remuneration Rs.	Qualification experience , Age limit Job description etc.
1	2	3	4	5
1.	Lab.Assistant	1	16,468/-	Age: 21-40 Qualification: The candidates should be 12 th passed with Science, Preference will be given to such candidates having experience in Drugs testing Laboratory. Job description : To help technical staff in drugs testing and allied procedure and proper maintenance of testing record. Preparation of reagents,solutions and maintenance of the Laboratory. Any other duties assigned by the head of Laboratory from time to time.

Instructions :

- 1.Walk in interview on 30.5.2019 at 10.00 AM
- 2.Applicants should reach in office of Director,Central Drugs Testing Laboratory,Mumbai alongwith the testimonials and application in prescribed format duly filled.

12. Brief professional experience:

Office/Instt. Firm	Post held	Part time/ Contract Basis/ Ad-hoc/ regular/ Temp./pmt.	Exact dates to be given (indicate day, month & year)		Total Period (in years)			Scale of pay	Nature of duties	Encl. No.
			From	To	Years	Months	Days			
Total										

13. Any other relevant information:

14. Details of enclosures: 1)

2)

3)

I hereby declare that all the statements made in the application are true and complete to the best of my knowledge and belief.

Date:

Signature of candidate

Place:

Address: